

the source would be Rs. 3.47 crores out of which the revenue from Tamil Nadu would be Rs. 32.78 lakhs.

(b) As the number of unauthorised powerlooms in the country is estimated to be anything between 75,000 to 1 lakh, the estimated loss on account of these powerlooms operating without the Textile Commissioner's permit would be Rs. 75 lakhs to Rs. 1 crore. No separate figures are available for Tamil Nadu.

#### पांच सितारों वाले होटल

6463. श्री श्याम सुन्दर सोमानी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र में इस समय पांच सितारों वाले कितने होटल हैं;

(ख) इन होटलों ने वर्ष 1975-76 के दौरान कितना लाभ कमाया; और

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ नये पांच सितारों वाले होटलों का निर्माण करने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुढुथोत्तम कौशिक) (क) सार्वजनिक क्षेत्र में फिलहाल एक होटल है जिसका 5-स्टार डीलक्स के रूप में श्रेणी विभाजन किया गया है परन्तु 3 और ऐसे होटल हैं जिनका वर्ग-विभाजन अभी किया जाना है, 5-स्टार वर्ग की सुविधाएं प्रस्तुत करते हैं।

(ख) 1975-76 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के तीन होटलों ने 103.66 लाख रुपये का लाभ कमाया, जबकि होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित चौथे होटल ने यद्यपि 1.93 लाख रुपये का परिचालन लाभ कमाया परन्तु मूल्य-ह्रास तथा व्याज के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् उसने 127.61 लाख रुपये की हानि उठाई।

(ग) नए 5-स्टार वर्ग के होटलों के

निर्माण पर मार्केट भावश्यकताओं को धृष्टि में रखते हुए तथा संतोषजनक व्यवहार्यता अध्ययन, वित्तीय साधनों की उपलब्धता तथा अन्य सरकारी प्राथमिकताओं के सापेक्ष विचार किया जाएगा।

#### राजस्थान में पर्यटन का विकास

5464. श्री श्याम सुन्दर सोमानी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए जून, 1973 से 30 जून, 1976 तक केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को कितनी सहायता दी है;

(ख) क्या सरकार ने उन कारणों की जांच की है जिनके परिणामस्वरूप राजस्थान में पर्यटन के विकास में बाधा पहुंची है; और

(ग) क्या चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसे पर्यटक आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु सरकार के पास कोई विशेष योजना है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुढुथोत्तम कौशिक) : (क) जून, 1973 से जून, 1976 की अवधि के दौरान राजस्थान में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 32,73,289.00 रु० के लगभग की सहायता प्रदान की गई।

(ख) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से 1976 के दौरान राजस्थान का पर्यटन संभाव्यता सर्वेक्षण प्रायोजित किया। इस पर्यटन सर्वेक्षण के जांच-परिणामों के अनुसार जिन कारणों ने राज्य में पर्यटन के विकास में बाधा उत्पन्न की, वे थे—पर्यटन के आधारभूत साधनों का अभाव तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के अपर्याप्त प्रयत्न।

(ग) पयटन सर्वेक्षण दल की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार निम्न-लिखित प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है:—(क) चित्तौड़गढ़ में टॉयलेट मुविधायों सहित एक कैंटीन की व्यवस्था; (ख) फोर्ट के लिए तथा उसके अंतर्गत संदर्शित कोच यात्राओं का परिचालन; तथा (ग) दिल्ली-जयपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर के बीच तीव्रगामी गाड़ियों के परिचालन की संभावना का अनुसंधान।

उत्तर प्रदेश में कटाई और कपड़ा मिलों का बन्द होना

5465. श्री राम प्रसाद बेशमुख : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बन्द होने वाली कटाई एवं कपड़ा मिलों की कुल संख्या तथा नाम क्या हैं और उनमें तक़ुओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन मिलों के बन्द होने के परिणाम-स्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार हुए; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन श्रमिकों को नौकरी देने का है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) से (ग). जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स लि०, कानपुर नामक एक सूती वस्त्र मिल बंद पड़ी है, जिसकी वजह से 25,780 तक़ुएं और 189 करघे बेकार पड़े हैं तथा लगभग 2,276 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मिल को पुनः चलाने की दिशा में प्रयास कर रही है ताकि श्रमिक काम पर वापस लौट सकें।

### Tripartite Meeting on impending Strikes in Jute Mills

5466. SHRIMATI V. JAYALAKSHMI: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether tripartite meeting on the impending strikes in the Jute industry was held at Calcutta; and

(b) if so, what decisions were taken thereat to prevent the closure of the jute mills?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) and (b). In the context of the situation arising out of shortage of raw jute Commerce Minister held a meeting on 3rd July, 1977, in Calcutta with the representatives of jute industry, labour and Government of West Bengal. The following main decisions were taken in this meeting:—

(i) Block closure of jute mills would not be allowed.

(ii) A Committee under the chairmanship of the Jute Commissioner would be constituted with immediate effect to study the current raw jute supply situation and to recommend measures therefor. The members of the Committee would include representatives from the industry, labour and the Government of West Bengal.

(iii) The Jute Commissioner was asked to immediately issue a notice under the Jute (Licensing and Control) Order requiring all stockists of raw jute to disclose their stocks before him within 48 hours. Any violation of this directive or furnishing false information was to be dealt with severely under the Essential Commodities Act, 1955. The State Government was requested to extend all necessary help.

(iv) The State Government also agreed not to entertain any application from individual mills for exemption from the Energy Control